

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम : ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान
पाठ 5 : सूचना स्रोतों का एक विहंगावलोकन
कार्यपत्रक - 5

1. क्या आपको लगता है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी उपलब्ध कराना ग्रंथालयाध्यक्षों के लिए महत्वपूर्ण है? आपके अनुसार संसाधनों में विभिन्नता का अभाव उपयोगकर्ता को कैसे प्रभावित करता है?
2. यदि आप किसी महाविद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं तो किसी विशिष्ट कक्षा या किसी विशेष विषय या डिग्री में प्रवेश के लिए आप किस प्रकार के सूचना-स्रोत से सहायता लेना चाहेंगे?
3. हमारे लिए प्राथमिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना क्यों कठिन है?
4. उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से सूचना के द्वितीय स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी डिजिटल या वास्तविक ग्रंथालय में जाइए और उनके द्वारा मँगाए जाने वाले किन्हीं 10 समाचार पत्रों अथवा पत्रिकाओं की सूची बनाइए और किसी एक विशेष माह के लिए उन्हें वर्णानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ग्रंथालयाध्यक्ष से यह भी पूछिए कि वे ये खास पत्रिकाएं ही क्यों मँगा रहे हैं? उसके बारे में लिखिए।
5. क्या आपको लगता है कि विद्यालय ग्रंथालय सूचना के तृतीयक स्रोतों का पालन करते हैं? सूचना के किसी तृतीयक स्रोत का उदाहरण लिखिए।
6. अन्य माध्यमों, जैसे- डीवीडी, सीडी, रोम, ब्लू रे, माइक्रोफिश, फिल्मों, वीडियोटेप्स पर प्रलेखीय सूचना स्रोत डेटा-संग्रह का एक बेहतर तरीका है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए।
7. गैर प्रलेखीय सूचना स्रोतों में मनुष्य, संगठन, मास मीडिया और इंटरनेट आते हैं। उक्त सभी स्रोतों में से पढ़ने के लिए कौन-सा स्रोत सुविधाजनक है? साथ ही, आप अपने अध्ययन के लिए अधिकतर किस स्रोत का प्रयोग करते हैं, और क्यों?
8. वर्ष 1600 ईस्वी तक छपाई कला का प्रयोग आरंभ हो गया था। इस समय पहला समाचार पत्र भी आया था। भारत और विश्व के पहले समाचारपत्र के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए।
9. अपने आसपास के किसी ग्रंथालय में जाइए और देखकर बताइए कि क्या ये ग्रंथालय ग्रंथालय विज्ञान के नियमों का पालन कर रहे हैं? यदि हाँ, तो वे किस नियम का पालन कर रहे हैं और किसका नहीं? संक्षेप में उत्तर लिखिए।
10. संदर्भ सेवा ग्रंथालय द्वारा पूर्वानुमान से और मँगे जाने पर प्रदान की जाती है। इस सेवा में प्रयोगकर्ता को या तो उसके प्रश्न का उत्तर दिया जाता है या उसे कोई प्रलेख उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त अनुच्छेद के लिए एक प्रश्न बनाइए।